



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 230 राँची, मंगलवार, 13 मार्च, 2018 (ई०)

---

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

अधिसूचना

20 जनवरी, 2018 ई०

पत्र संख्या-13/सी०-108/2017-472

प्रेषक,

गणेश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,

झारखण्ड, राँची ।

विषय:-

श्री एम० विष्णुवर्द्धन राव, भा०पु०से० (1987) तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय, कैम्प नई दिल्ली द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि की सेवा विनियम करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री एम० विष्णुवर्द्धन राव, भा०पु०से० (1987) तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी पुलिस आधुनिकीकरण, कैम्प नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के उपरांत 60 दिनों के प्रदत्त उपार्जित अवकाश का उपभोग कर दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के पूर्वाहन में राज्य में योगदान दिया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं०-6451, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के आलोक में इन्होंने दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के पूर्वाहन में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची का पदभार ग्रहण किया। इस बीच श्री राव भा०पु०से० दिनांक 7 नवम्बर, 2017 से 13 नवम्बर, 2017 तक प्रभार रहित अवधि में रहे जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(बी०)(आई०) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(ख) के तहत श्री एम० विष्णु वर्द्धन राव, भा०पु०से० (1987) के दिनांक 7 नवम्बर, 2017 से 13 नवम्बर, 2017 तक की प्रभार रहित अवधि की सेवा को अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. श्री राव भा०पु०से० (1987) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन

ह०/- (अस्पष्ट),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----